



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261864
CG-DL-E-22032025-261864

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]
No. 218]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

भारतीय उपचर्या परिषद्
प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2025

फा. सं. 18-18/8107-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्वास्तिक रेस्टोरेन्ट के पास, ग्राम चाल्डू, तहसील नीमच, जिला नीमच-458339 (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा मध्य प्रदेश उपचर्या परिषद् द्वारा जीएनएम, बी.एससी. (नर्सिंग) तथा पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

हालांकि, भारतीय उपचर्या परिषद अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 13(1) के अनुसार, भारतीय उपचर्या परिषद् ("परिषद्") को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान का निरीक्षण करने का अधिकार है। लेकिन, जब परिषद् द्वारा नियुक्त निरीक्षक कॉलेज पहुँचे, तो उन्हें वैधानिक निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई।

हालांकि, कॉलेज को नोटिस संख्या 18-18/8107-आईएनसी दिनांक 26.12.2023 जारी कर निरीक्षण से इनकार करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें जवाब देने के लिए कॉलेज को 15 दिन का समय दिया गया था। लेकिन, कॉलेज उक्त कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब/टिप्पणी भेजने में असफल रहा है। तत्पश्चात, अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के तहत प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश राज्य सरकार को एक नोटिस संख्या 18-18/8107-आईएनसी (57730) दिनांक 09.05.2024 को जारी किया गया था, जिसमें उनसे कॉलेज द्वारा परिषद को वैधानिक निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार करने के मुद्दे पर उनकी टिप्पणी/राय मांगी गई थी। लेकिन, परिषद को कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

वहीं, परिषद् की कार्यकारी समिति ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। किसी भी कॉलेज द्वारा वैधानिक निरीक्षण से इनकार करने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि ऐसा संस्थान परिषद् द्वारा निर्धारित विनियमों और पाठ्यक्रम का पालन नहीं करता है तथा नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त नहीं है।

अतः, अधिनियम की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 26.10.2024 से **संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्वास्तिक रेस्टोरेंट के पास, ग्राम चाल्दू, तहसील नीमच, जिला नीमच-458339 (मध्य प्रदेश)** से **जीएनएम, बी.एससी. (नर्सिंग) तथा पी.बी.बी.एससी. (नर्सिंग)** मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य सरकार और मध्य प्रदेश राज्य नर्सिंग परिषद के आदेशों के अध्वधीन केवल मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1080/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 10th March, 2025

F. No. 18-18/8107-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, Government of Madhya Pradesh and Madhya Pradesh State nursing Council had granted recognition to **Sanjeevani College of Nursing** situated at **Near Swastik Restaurant,, Vill.-Chaldu, Tehsil – Neemuch Distt. Neemuch – 458339 Madhya Pradesh** (“College”) for running **GNM, B.Sc(N) and PB B.Sc(N)** course.

Whereas, in terms of Section 13 (1) of the Indian Nursing Council Act (“Act”), the Indian Nursing Council (“Council”) has the power to inspect any Institution recognized as a training institution by State authorities. However, when the inspectors appointed by the Council reached the College, they were not allowed to carry out the statutory inspections.

Whereas, notice no. 18-18/8107-INC dated 26.12.2023 was issued to the College seeking their explanation for refusal of inspection. That 15 days were given to the College to respond. However, the College has failed to send any reply/ comments to the said show cause notice. Further, a notice no. 18-18/8107-INC (57730) dated 09.05.2024 was issued to the Principal Secretary, Health and family welfare department (state government of Madhya Pradesh) asking them for their remarks/ comments on the issue of refusal by the College to allow the Council to conduct statutory inspection. However, no comments were received by the Council.

Whereas, the Executive Committee of the Council had considered the aforesaid matter in its entirety. In cases of refusal of statutory inspection by any college, it shall be assumed that such institution does not follow the regulations and syllabus prescribed by the Council and is not suitable to grant training in nursing field.

Hence, therefore, the Council in exercise of its power conferred under Section 14 (3)-(b) of the Act declares that with effect from 26.10.2024, any person obtaining a qualification of **GNM, B.Sc(N) and PB.B.Sc(N) from Sanjeevani College of Nursing situated at Near Swastik Restaurant, Vill.-Chaldu, Tehsil – Neemuch Distt. Neemuch – 458339 Madhya Pradesh** shall be entitled to be registered only in the State of Madhya Pradesh.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./1080/2024-25]